

# साई शरण में आज्ञा प्राणी क्यों बरमाया है

क्या ले जाएगा साथ संग क्या लाया है,  
साई शरण में आज्ञा प्राणी क्यों बरमाया है,  
शरण में आज्ञा प्राणी शरण में आज्ञा

इस जग को क्या पाया तूने बन बैठा शाहूकार यहाँ,  
नश्वरतन को पाया तूने बन बैठा हक़दार याहा,  
सब झूठ है पगले साई ने ये समझाया है,  
साई शरण में आज्ञा प्राणी क्यों बरमाया है,

साई दया के सागर है नदियां बन के मिल जा इस में,  
झूठ कपट की कीचड़ में बन कमल आज खिल जा इस में,  
जो डूबा साई सागर में वही तर पाया है,  
साई शरण में आज्ञा प्राणी क्यों बरमाया है,

मेरे शब्दों की इस कविता को श्रद्धा के फूल समज लेना,  
हु अज्ञानी बस दोष भरे मुझको बस भूल समज लेना,  
साई देदो उसको हाथ जो दर पे आया है,  
साई शरण में आज्ञा प्राणी क्यों बरमाया है,

Source:

<https://www.bharattemples.com/sai-sharn-me-aaja-praani-kyu-barmaaya-hai/>



# Bharat Temples

Complete Bhajans Collections - Download Free Android App

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numetive.bhajans>

Facebook: <https://www.facebook.com/bharattemples/>

Telegram: <https://t.me/bharattemples>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC24oJCxZjyhhKzSUD-Lt9Tw>